

प्रकाशक—

ठाकुर राजवंशीसिंह

गगहा

गोरखपुर



मुद्रक—सुशोभ चन्द्र वर्मा वी० एस-सी०, सरस्वती प्रेस,
जार्ज टाउन, इलाहाबाद

लिये लेखनी दूटी मी,
दूटी कविता मैं लिखता हूँ ,
दूटी वीणा के तारों से.
दूटे फूटे स्वर गाता हूँ ।

अरे ! देखना, हँस मत देना,
सुन वीणा की यह भंकार,
भग्न हृदय की विषम वेदना,
दूटे धनु की यह 'टंकार' !

—०:०—

उपहार

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
कवि से	१
राणा प्रताप	२
तुलसीदास	१०
✓ दुखिया का धन	३०
ममाधि दीप	४३
होली	४३
✓ भूखों का देवता	६९
बन्दी	८०
अतीत	८६
टंकार	१०५



ससर्पण

श्रद्धेय ठाकुर रामसेवकविंशी जी को नमस् ।

मेरे पथ प्रदर्शक !

आप सदैव इस मत के पक्षपाती रहे हैं जिसे मैं अपने गुरु का प्रतिनिधि होता हूँ । वह चाहे तो देश का नाम बिना मेरे अपने चरम सीमा तक पहुँचा सकता है या पतन के गहरे गत में डूबे सकता है । आपका हमारे लिए सदैव यही आदेश रहा कि तुम कविताओं में अपना दर्द-दिल नहीं, बल्कि देश का उर्ध्व शिरोधार्य ।

अस्तु, टकार इसी भावना की एक प्रेरणा है । मैं गुरु शिरोधार्य क्या दे सकता हूँ ?

किन्तु,

सुनता गुरु का हूँ हुआ करता बहुत ही श्रृणवटा ,
तो ?

गुरु देव ! लो स्वीकार कर मेरी यही गुरु-दक्षिणा ।

आपका वही
छोटा भैया
'सत्य'

आमुख

किशोर कवि सत्यव्रत सिंह 'सत्य' लिखित 'टकार' नामी कविता-पुस्तक मैंने मनोयोग से देखा। आचोपान्त दस पदा और हमके मर्मस्पर्शी स्थलों में मैं डूबा और उतराया भी। कई ऐसे स्थल मिले, जहाँ करुणा के उद्रेक से मेरा कंठ रुद्ध हो गया, और नेत्र सजल हो गये। कवि की सफलता का इससे अधिक प्रमाण और क्या हो सकता है ?

इस समय हिन्दी की, काव्यधारा में प्रवाहित होने वाली राष्ट्रीय चेतना की स्रोतस्विनी बड़ी ही शक्तिमती है। इसमें निर्जीव कल्पना नहीं, अपितु, व्यथित राष्ट्र के अन्तरतम की सच्ची कसक, कराह, आशा और अभिलाषाएँ मुखरित हैं। सत्यव्रत जी इसी राष्ट्रीय धारा के कवि हैं।

[ख]

उनकी कविता में भाषा का सौन्दर्य, छन्दों का सौन्दर्य, माधुर्य, भले ही कम हो, किन्तु, भाव सौन्दर्य बहुत अच्छा विखरा है। ऐसा जान पड़ता है जैसे कवि का हृदय देश के हृदय में मिल कर एक हो गया हो। उनकी प्रत्येक कविता, देश काल के साथ चलती हुई दृष्टिगत होती है, जिसमें जीवन है, उत्थान है, आशा और उत्साह है।

उनकी समस्त कविताओं में 'राणा प्रताप के प्रति' उनकी कविता, आलम्बन की उत्कृष्टता के कारण, तथा भावाभिव्यक्ति के कारण, बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। इस कविता में राणा प्रताप का लघु किन्तु सुदृढ रेखाचित्र अंकित हुआ है। एक करुणा जनक चित्र देखिए—

आह ! घास की रोटी खाते,
हैं नन्हें-नन्हें सुकुमार,
लखकर कौन भला कह सकता,
हैं बेचारे राजकुमार ?

किन्तु, आज भी एक अलौकिक
आभा खेल रही मुख पर,
किसने पानी फेर दिया है
आह ! विचारों के सुख पर !

अरे कुमारी चीख पड़ी क्यों,
कुटिया में कैसा रोना ?
गूँज पढा क्यों कर कुटिया का
आज अरे रोना-रोना !

कितना करुणाजनक चित्र है ! वस्तुतः, इसी प्रकार दुःखद्वय भावनाओं ही से पता चलता है कि कवि कितना सहृदय है और सहृदयता ही सब पहुँछिए तो किसी भी कवि के काव्य की मूल्यांकन है !

किन्तु, यह रुदन बहुत नहीं चलता । आगे उनमें रोना का सागगा तट है, जिसे अश्रु की लहरें तोट नहीं सकती । आगे की पंक्तियाँ यों-

किन्तु समझ ले राणा यह तो
तेरी एक परीक्षा है
तरे अद्भुत महाधैर्य की
होती एक समीक्षा है !

नहीं कहीं पथ से डिग जाना,
बेटी जो कातर लखकर,
स्वतन्त्रता पथ पर आती है
प्राण हथेली पर रखकर !

आज से पहले भी इसी प्रकार की भावनाधारा को खेकर पृथ्वीभट्ट नामक कवि ने राणा को सम्बोधित किया था ।

[ख]

उनकी कविता में भाषा का सौन्दर्य, छन्दों का सौन्दर्य, माधुर्य, भले ही कम हो, किन्तु, भाव सौन्दर्य बहुत अच्छा दिखता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे कवि का हृदय देश के हृदय में मिल कर एक हो गया हो। उनकी प्रत्येक कविता, देश काल के साथ चलती हुई दृष्टिगत होती है, जिसमें जीवन है, उत्थान है, आशा और उत्साह है।

उनकी समस्त कविताओं में 'राणा प्रताप के प्रति' उनकी कविता, आलम्बन की उत्कृष्टता के कारण, तथा भावाभिव्यक्ति के कारण, बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। इस कविता में राणा प्रताप का लघु किन्तु सुदृढ रेखाचित्र अंकित हुआ है। एक करुणा जनक चित्र देखिए—

आह ! घास की रोटी खाते,
हैं नन्हें-नन्हें सुकुमार,
लखकर कौन भला कह सकता,
हैं बेचारे राजकुमार ?

किन्तु, आज भी एक अलौकिक
आभा खेल रही मुख पर,
किसने पानी फेर दिया है
आह ! विचारों के सुख पर !

अरे कुमारी चीख पड़ी क्यों,
कुटिया में कैसा रोना ?
गूँज पढा क्यों कर कुटिया का
आज अरे बोना-कोना !

कितना करुणाजनक चित्र है ! वस्तुतः, इसी प्रकार हृदयद्रावक भावनाओं ही से पता चलता है कि कवि कितना सहृदय है और सहृदयता ही सच पूँछिए तो किसी भी कवि के काव्य की कसौटी है !

किन्तु, यह रुदन बहुत नहीं चलता । आगे उसमें धैर्य का पायाण तट है, जिसे अश्रु की लहरे तोड़ नहीं सकतीं । आगे की पक्तियाँ पढिए—

किन्तु समझ ले राणा यह तो
तेरी एक परीक्षा है
तरे अद्भुत महाधैर्य की
होती एक समीक्षा है !

नहीं वहाँ पथ से डिग जाना,
बेटी को कातर लखरुंर,
स्वतन्त्रता पथ पर आती है
प्राण हथेली पर रखकर !

आज से पहले भी इसी प्रकार की भावनाधारा को खेकर पृथ्वीभट्ट नामक कवि ने राणा को सम्बोधित किया था ।

[व]

भम्या-भम्या पहाड़, धरा छोड़ि राख्यो वरम,
तिन राणा मेवाड़, बसिया हिन्दू हृदय मर्हें !

इस प्रकार की डिगल भाषा में उन्होंने अपने भाव व्यक्त किये थे। और, कहा यह जाता है कि फिर राणा प्रताप सन्धि करने नहीं गये। उनका गौरव अक्षुण्ण रहा।

इस प्रकार, इस कवि में जहाँ एक ओर करुणा की धारा प्रस्कृत है, वहाँ दूसरी ओर वीर रस का भी प्रवाह है। दोनों ही में भावोद्रेक करने की क्षमता है। किन्तु, इनके करुणा के चित्रों का प्रभाव पाठक के मन पर स्थायी और कुछ विशेष गहरा पड़ता है।

देखो कुटिया से निकला वह
जीर्ण शीर्ण-सा नर कंकाल !
नेत्र घुस गये हैं कपोल में
पचक गये हैं दोनों गाल ।

यह दरिद्र भारत का जीता-जागता, चलता-फिरता, दिनरात का देखा-सुना चित्र है।

‘दुखिया का धन’ नामी कविता में करुणरस का अर्च्छा परिपाक हुआ है।

कवित्व की दृष्टि से इस संग्रह में ‘समाधिदीप’ नामी कविता सब से अर्च्छी वन पडी है।

प्रारम्भ से लेकर अन्त तक निर्वाह भी सस्मित एवम् उत्कृष्ट है।
प्रत्येक पक्ति में कविता का रग है।

तुम किसकी विरह वेदना में
जलते रहते दिन रात सखे !
हा किसकी मिलन प्रतीक्षा में
करते व्यतीत दो याम सखे !

इन पक्तियों में भावना बोल रही है। कल मैंने कविता की एक नयी परिभाषा पढ़ी, वह यह कि 'कविता हृदय तथा कवि उक्ति के बीच का सब से कम अन्तर है।' विचार अंगरेजी भाषा में व्यक्त हुआ है। अतः पाठक उसका स्वारस्य, सम्भव है सुचारु रूप से ग्रहण न कर सके तथापि उक्ति सुन्दर है। परिभाषा मुझे पसन्द आयी, 'Poetry is least distance between heart and utterance of the Poet' इस दृष्टिकोण से समाधिदीप, रचना में हृदय की वाद ही अधिक है।

आगे, कवि की अनूठी उक्ति देखिये—

देखो कोमल उर पर प्रिय के
है कितना भीषण भार सखे !
क्या आशा है, कर सक्ते हो
तुम उसे जला कर क्षार सके।

[च]

अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं, महद्य स्वयम् इसके अर्थ के आनन्द का अनुभव करेंगे ।

हे तृषा तुम्हे, पर बुझे कहीं ?
अक्षय यौवन की प्यास सखे !
जब तस अधर को करते हैं
वह-वह प्रतिपल निश्वास सखे !

इसमें भी सार्थक उक्ति है ।

इस प्रकार समस्त कविता, कवित्व से परिपूर्ण है । कवि सत्यव्रतसिंह की कविता इस प्रकार समाधि दीप में आकर बहुत कुछ ऊँची सतह पर पहुँची है । इससे उनके विकास के क्रम का बोध होता है, और कहा जा सकता है कि पहले से अब अच्छी कविता करते हैं । आशा है भविष्य में और भी भावमयी, हृदयस्पर्शी, कविताएँ लिखेंगे ।

इतना लिखना यहाँ आवश्यक है कि उनकी कविताएँ आवश्यकता से अधिक बड़ी हैं । कविता छोटी ही सुन्दर होती है ।

वे प्रबन्ध कविता अच्छी लिख सकते हैं । कहना न होगा कि उनके प्रोत्साहन के लिए ही यह सराहना (Appreciation) लिखी गयी है । आशा है पाठक उनकी कविता को स्नेह से ग्रहण करेंगे जिससे भविष्य में वे ऊँचे देश-प्रेम में पूर्ण, तथा हृदय की गहराई से निकली हुई वाणी से लिख सकें ।

[छ]

उनका देश प्रेम श्लाघ्य है, किन्तु, हमारे बन्धु स्नेह के पात्र होने चाहिए घृणा के नहीं। 'मानव से घृणा न करना चाहिए, घृणा करना चाहिए मानव की दानवी वृत्ति से' आशा है, भविष्य में कविता के इस टोन को वे सुस्निग्ध कर सकेंगे।

गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में कुछ उलट-फेर के साथ मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनकी कविता में कोई गुण नहीं, केवल देश प्रेम है। अतः, देश प्रेमी केवल इसी गुण के कारण इनकी कविता को सरस समझ कर स्नेह से पढ़ेंगे।

तथास्तु

सोहनलाल द्विवेदी

प्रयाग }
३०-६-४० }

—:❀:—

कवि से

रे कवि । उठा लेखनी अपनी
उर मे कुछ उन्माद लिये ,
वीती हुई सुखद स्मृतियों की
एक सजीली याद लिये ।

आज तुम्हे लिखना है रे कवि ।
गाथा उन रणधीरों की ,
समता कर न सका जग जिनकी ,
उन प्रचंड बलधीरों की ;

(२)

अपने तप्त हृदय को कर ले
शान्त, उन्हीं सुस्मृतियों से,
सुस्थिर हो जा आज अरे कवि !
उनकी पावन कृतियों से ।

हैं विलीन यद्यपि अनन्त मे
हा ! वे भारत के सुकुमार .
क्रूर काल के पड़ लपेट मे ,
यद्यपि हुए वीर वे क्षार ;

पर स्मृति उनकी शेष न क्या है ,
गूँज रही जो जगती मे ?
धूम-धूम कर आज न क्या
सन्देश सुनाती धरती मे ?

आज विश्व के प्रांगण मे हैं
पढ़ा रहे वे पाठ नवीन ,
फिर समंग क्यों नहीं हृदय मे
बना हुआ क्यों रे कवि ? दीन !

(३)

एक नया अरमान लिये ,
उर मे नवीन अभिमान लिये ,
उठ रे कवि ! उठ !, समय, आज
अपनेपन का सम्मान लिए ;

रच गाथा उन वीरो की तू
एक निराली शान लिये
उठा लेखनी, विश्व जगे
तेरे नवीनतम गान लिये ।

राणाप्रताप

आह ! आज इस महारण्य में
ये नन्हे सुकुमार कहाँ ?
सुख की गोदी में पलने
वालों का भोला प्यार कहाँ ?

कठिन जेठ की दोपहरी में
विह्वल कितने बेचारे ?
क्रूर नियति के चक्कर में
हूँ पड़े विचारे मनमारे ।

आह ! विगाडा जग का क्या
जो इनने निर्वासन पाया ?
पाप किया था कौन भला ?
जो दिन यह लखने को आया ।

अभी अभी तो उतरे हैं ये
वैभव के सुख-पलनों से,
साथ अभी ही छूटा है
इनका वैभव के भरनों से ।

आह ! आज क्या साज बना है,
कल कैसा था साज ललाम ?
एक व्यथा के बाद दूसरी
व्यथा आ रही है अविराम ।

देखो तो जगती के है
ये कैसे भोले से प्राणी !
कितना शुद्ध मनस्तल इनका ,
वतलाती इनकी वाणी !

क्या जग का सुख ही समझा था,
दुख का पर्वत टूट पड़ा ?
एक ठेस ही मे तो इनका,
विधि-घट कच्चा फूट पड़ा ।

महा कठिन व्रत मे बेचारे
आज व्रती इस भौंति बने,
राज्य-विभव , ऐश्वर्य त्याग कर,
महा साधना मध्य सने,

भानु अनल की वर्षा करता,
महाताप से ये भयभीत,
आज नहीं इस सघन विपिन मे,
इनका है कोई भी मीत,

गद्दो पर सोते थे सुख से,
आज कंटको पर सोना,
आशाएँ हैं चार हो चुकीं,
सुख से भी अब कर धोना ।

विधिका क्या विधान निष्ठुर है ।
पथ के बने भिखारी हैं,
बस स्वतन्त्रता के ही कारण
तो ये महा दुखारी हैं ।

अरी निष्ठुरे राज्य-पिपासा !
तेरी ही तो यह माया,
बोल बोल तो कुछ भी तू,
क्यों खेल भयंकर यह भाया ?

अकबर है सम्राट परन्तु
न लोभ मिटा अब भी उसका,
एकवार तू बसकर मन में
पिड छोड़ती है किस का ?

राणा पर भी कृपा-दृष्टि
अकबर की पड़े बिना न रही,
इच्छा है जब उसकी यह,
ले जीत आज वह सकल मही,

पर राणा क्यों शीश झुकाये,
क्यों रजपूती, छोड़े आन ?
इसको कैसे भला छोड़ सकता,
वह तन में रहते प्राण ?

नहीं किये हैं विस्मृत अब भी,
वीर शिरोमणि निज इतिहास,
वही रक्त अब भी वहता है
नहीं हुआ अब भी कुछ हास ।

साधर पिपासी यदि तलवारें
है, तो हो लेवे वे शान्त,
किन्तु पराजय के भय में
हो सकता राणा आज न भ्रान्त ।

जीवन में क्यों करे पराजय
का अनुभव वह शूर भला ?
पराधीन होने से अच्छा
है दे देना समुद्र गला ।

इसी टेक पर हल्दी घाटी
मे समरात्रि महा भड़की,
एक वार प्यासी तलवारे
समग्क्षेत्र मे आ कड़कीं ।

आज दृश्य है महाप्रलय का,
प्राणो की है होड़ लगी,
जीवन की आशा इन शूरो
से है कोसो दूर भगी ।

प्राणो का सौदा करने
आये हैं ये रणधीर महा,
आज कहाँ वर की ममता है,
जीवन का है मोह कहाँ ?

विजय-मदान्मत अकबर को
वलिदानो की है क्या परवाह ?
कितना ही अनर्थ होवे-
पर उसे राज्य-तृष्णा की चाह !

आज न राणा वह राणा है,
वह तो आज प्रवासी है,
नहीं राज-अधिकार उसे है,
चना आज वन-वासी है।

वेवस वना भाग्य के सन्मुख
नहीं कर्म से हीन वना;
कर्त्तव्यों से मुख न मुड़ेगा,
दुख पर आवे दुःख वना।

राणा ने अपराध किया था,
बच्चो ने क्यो फल पाया ?
राज्य-पाट है सब जिनका,
उन पर यह क्यो दुर्दिन आया ?

भेल रहे हैं क्यो वेचारे,
दारुण वन के दुःख व्यथा ?
वन-प्रवास क्यो पाया उनने,
जव उनका कुछ दोष न था ?

आह ! घास की रोटी खाते
हैं नन्हे - नन्हे सुकुमार,
लख कर कौन भला कह सकता
हैं बेचारे राजकुमार !

किन्तु आज भी एक अलौकिक
आभा खेल रही मुख पर ।
पानी किसने फेर दिया है,
आह ! विचारों के सुख पर ?

अरे ! कुमारी चीख पड़ी क्यों,
कुटिया में कैसा रोना ?
गूँज पड़ा क्यों कर कुटिया का,
आज अरे ! कोना-कोना !

राज कुमारी के कर की
रोटी, आ छीन ले गया कौन ?
कर मस्तक पर आज धरे
वैठे हैं राणा चिन्तित—मौन !

आह ! घास की रोटी को भी
क्यों दुर्दिन ने छीन लिया ?
इतना ही क्या कम वैचारो को,
दुर्दिन ने दुःख दिया ?

नहीं दूसरी रोटी भी है
जुधा शान्त जिससे होवे,
कई दिवस की जुधित विचारी
क्यो निज धैर्य नहीं खोवे ?

इतना अक्षम है राणा क्या
भोजन भी जो दे न सके ?
देश, जाति की रक्षा हित
क्यों रे दीवाने व्यर्थ थके ?

किन्तु समझ ले राणा ! यह तो
तेरी एक परीक्षा है,
तेरे अद्भूत महा धैर्य की
होती एक समीक्षा है।

नहीं कहीं पथ से डिग जाना
वेटी को कातर लख कर,
स्वतन्त्रता पथ पर दिखलाती
प्राण हथेली पर रख कर ।

साहस खो बैठा अपना यदि,
सारा जग फिर हँस देगा,
ओ स्वतन्त्रता के दीवाने !
जग आड़े हाथो लेगा ।

हुआ वही जो भय मन में था,
ध्येय सभी निज भूल गया,
वेटी का रोना लख करके
उर में उपजा शूल नया ।

तो क्या तू अकबर से करने
जाता, रे राणा ! सन्धी ?
कितना था असह्य दुख
जिमसे बुद्धि हुई तेरी अन्धी ।

पर यह क्या तेरी पुत्री ही,
दे तुझको आदेश रही ?
सच है, क्षत्रिय-पुत्री का,
सचमुच होता है वेश यही ।

नेत्र खुल गये अब तेरे,
फिर से करना यह भूल नहीं,
जाना मत पुत्री की इस,
शिक्षा से तू प्रतिकूल कहीं ।

इसी कटकाकीर्ण विस्तरे
पर, तो तू सुख से सोता,
फिर क्यों एक अचानक घटना,
से, अधीर इतना होता ?

कंटक के पश्चात् तुम्हें,
फूलों का पथ मिलने वाला,
इसी पराजय के स्वरूप तो,
पायेगा तू जय-माला ।

महा परीक्षाएं तेरी. होती
स्वतन्त्रता — अनुगामी ,
इनमें यदि उत्तीर्ण हुआ तो,
होगा अमर महानामी ।

देख तनिक तो कुटी द्वार पर,
एक भिखारी है आया,
भोजन का इच्छुक सा वह,
है लेता कुटिया की छाया ।

बोल ! भला देगा क्या उसको,
घर में बचा शेष ही क्या ?
तो उस बुढ़े अतिथि देव को ,
यों ही विदा करेगा क्या ?

देख उधर, मत हो चिन्तित ,
है बेटी दो पैसे रखे ,
आज इसी से अतिथि विचारा ,
दुखियों का भोजन चक्खे ।

रोटी बनते ही परन्तु ,
जा अतिथि हुआ किस ओर विलीन ?
समझ गया क्या वह भी, यह
है कुटिया जिसमें रहता दीन ?

नहीं विकल हो, मेरे दानी !
था वह भिजूक तो अकबर ,
देख तुम्हारी दान शीलता ,
स्वतः भुक्त गया उसका सिर ।

दृढ़-व्रत हो जिसका ऐसा ,
कर सकता कौन विजय उसको ?
भूखों रह कर अन्य खिलावे ,
लड़ने का साहस किसको ?

अकबर हार गया तुम्हसे अब ,
हे रघुकुल के तिलक प्रताप !
जब तक जगती की सत्ता है ,
अक्षय तेरी कीर्ति-कलाप !

(२५ जुलाई १९४० ई.)

तुलसीदास

हे भारत के उज्वल गौरव ,
निखिल ज्ञान के भांडारी !
हे स्मरणीय पुरातन तुलसी ,
मर कर भी जीवन-धारी !

सावन की रिमक्तिम फिर आयी,
लेकर ये तेरा आख्यान ;
वही पुण्य तिथि आज श्रेष्ठ कवि ।
लायी है तेरा गुण गान ।

उम अतीत की सुख-स्मृतियाँ ,
चिर सञ्चित सारी इस तिथि में;
हिन्दी का सौभाग्य छिपा है ,
आह ! इसी कुटिला तिथि में ।

गूँज रही है सकल विश्व में ,
कीर्ति-कौमुदी पर तेरी ;
हृदय-लोक के घर घर में,
है आज लगाती वह फेरी ।

काव्य-कुसुम के परिमल हो तुम,
हे हिन्दी के तुलसी दास !
भारत के घर-घर में अब भी
विद्य तुम्हारा रुचिर-निवास ।

भूत, भविष्यत् वर्तमान के ,
पथदर्शक तुम आज कहाँ ?
अन्तर-उर के हे प्रकाश !
वह भव्य तुम्हारा साज कहाँ ?

मनस्भावनाओं के नायक ,
 हे भावुक उर के कम्पन !
 हिन्दी की साहित्य-वाटिका
 के, हे सुरभित सरस सुमन !

शुचि शृंगार तथा करुणा के ,
 इष्ट देव श्री तुलसीदास !
 समता करने का तुमसे ,
 यह जग है करता विफल प्रयास !

देकर के निज कान्य-सुधा,
 जगती को जीवन दान दिया;
 इसीलिए तो हे कवि नायक !
 जग ने तेरा मान किया ।

रवि के सदृश ही वसुधा में,
 निज स्वर्णिम आभा फैला,
 स्वच्छ कर दिया सकल विश्व को,
 जो था दूषित, अति मैला ।

कर्म योग के योगी तेरा,
वह विकास मंजुल कितना ?
पतित विश्व को हाथ ! पतन से,
अब भी है रोके इतना ।

रामचरित-मानस मे तेरे,
शक्ति-महान छिपी कविवर,
क्लान्त-पथिक को जीवन-पथ में,
आज बना है वह तरुवर ।

विमल ज्योति-विस्तार हुआ है,
तेरी इस महान् कृति से,
आज हृदय को शान्त करे हम,
तेरी बस पावन स्मृति से ।

हिन्दी का भांडार भरा है,
तेरे रुचिर-रत्न-गण से ;
नहीं उच्छ्रय यह हो सकता है,
तेरे दिये हुए धन से ।

रुचिर वसन में निज कवित्व के,
तूने तत्व-पदार्थ भरा;
याद तुझे कर आज महाकवि !
हुआ हृदय का घाव हरा ।

अमर गान तेरा है गुजित,
भारत नहीं सकल जग में ;
नहीं रोकने वाला उसको,
आज एक भी है मग मे ।

नहीं एक भी क्षेत्र काव्य का,
वड़भागी तूने छोड़ा,
विश्व पतन-पथ पर जाता था,
तूने उसका मुख मोड़ा ।

अन्य कवि गणों ने तेरे,
जूठन से ही सन्तोष किया ;
अपनी प्रखर-ग्रभा से तूने,
जग का हर सब दोष लिया ।

(२२)

नष्ट-प्राय सारा समाज था,
उसका पुनरुत्थान किया ।
कविता के ही साथ-साथ,
निज जाति, धर्म पर ध्यान दिया ।

भक्तप्रवर हे कविनायक !
पीकर के भक्ती का प्याला,
सुधि तन-मन की भूल गया,
वन गया अहा ! तू मतवाला ।

निज मस्ती में भूला, तुझको
वैभव की परवाह नहीं,
रामभक्ति थी बहुत तुझे,
थी शेष तुझे कुछ चाह नहीं

अतुल रागिनी आज तुम्हारी,
गूँज रही अरवनी तल में;
भ्रान्त पथिक को मार्ग बताती,
वह अनुपम निधि बस पल में ।

हे भक्ती के दीवाने,
भक्ती में जग को रँग डाला,
विश्व जनो के अधरो पर
वह लगा दिया भक्ती-प्याला,

मनःविकार धो दिया सबका,
नव-जग का निर्माण किया;
मानवता की सेवा में ही
तूने अपना प्राण दिया ।

हे मनुष्यता के उन्नायक !
हे कवि-जग के सुन्दर प्राण !
कर्मा जगत से मिट सकता है,
क्या तेरा मुद्गमय आख्यान ?

अमर-गिरा की तेरी महिमा,
उज्वलतर से उज्वलतम ,
और निखरती ही जाती है
प्रतिभा, होती नेक न कम ।

सन्त, तुम्हारी वाणी मे है,
जीवन का अमरत्व भरा,
मनुज नहीं तुम देव प्रभो थे,
जगोद्धार हित रूप धरा ।

फिर निज देश चले तजकर के,
कार्य महान् हुआ पूरा,
कार्य महान् किये पूरा पर,
जग का स्वार्थ न था पूरा ।

विश्व-तपस्या के फल हो,
था देव । तुम्हारा हुआ सृजन,
छोड चले पर जग को तुम तो,
सभी भौंति कर के उन्मन ।

नहीं दिखाती क्या तुमको है
हिन्दी की यह पतित दशा ?
देखो करती आज सभी को
धमित, अँधेरी काल-निशा ।

पथदर्शक है आज न कोई,
साँप-छछूँदर की गति है,
हक्का बक्का आज सभी है,
नहीं किसी की स्थिर गति है।

आवश्यकता नाथ तुम्हारी,
भारत को है आज महा,
आओ शीघ्र तनिक देखो,
क्या भारत का वह साज रहा ?

मद, ममता, मत्सर ने आकर,
भारत को, देखो घेरा।
फूट डायिनी ने देखो,
आकर के निज डाला डेरा।

गूँज उठा था सकल विश्व जब,
तव अनुपम उपदेशों से ;
जगती का मस्तक जब नय था,
तव सुन्दर आदेशों से ,

तव सम्मुख जब अकबर ने भी,
अपना घुटना टेक दिया ;
उसका अर्पित मान, विभव ,
भगवन था तुमने फेंक दिया ।

तव, अब मे कितना अन्तर है !
देखो भारत मे आकर ,
अब तो हैं मदान्ध वन बैठे ,
सब के सब प्रभुता पाकर ।

आह ! पददलित दीन हो रहे
हैं, भारत में सब ही ओर ,
नहीं विचारो को मिलता है,
रहने को भी जग मे ठौर ।

इसीलिए क्या आ न रहे हो ?
लगा रहे हो इतनी देर ,
नहीं तुम्हे क्या भगवन ! भाता
क्रूर समय का चक्कर-फेर ।

तुमने ही तो लिख डाला था ,
अटल नियम यह जग का देव ,
फिर आने मे आज भला क्यों ,
दिखलाते हो नाथ कुटेव ?

आह ! भारती हम कब से हैं ,
आँखें फाड़ निहार रहे ,
किन्तु आह ! रूठे हो इतने ,
दया न नेक पसार रहे ।

देव तुम्हारे जन्म-समय मे
भी भारत था पतित महा ,
किन्तु न जाने क्यों तब तुमने
एक शब्द प्रतिकूल कहा ?

तुमको तब आने मे क्योंकर
भगवन ! हुई नहीं पीडा ?
तब तो इसे उठाने के हित ,
उठा लिया तुमने व्रीडा ।

(२८)

तुमसे ही तो पा प्रकाश इस ,
भारत ने शिक्षा पायी ,
भक्ति-रंग मे रँग करके ,
भारत ने नव दीक्षा पायी ।

कायाकल्प हुआ तुम से ही ,
तुम से ही उद्धार हुआ ;
फिर इसका उद्धार तुम्हे, क्या
दिखलाता है भार नया ?

आखिर, क्यों इतना भूले हो
इसमे दोष हमारा क्या ?
आज डूबती नौका को
दोगे तुम नहीं सहारा क्या ?

हम को तो आशा महान है,
आओ या न यहाँ आओ,
दीप धूप लेकर बैठे है,
दर्शन तो दिखला जाओ ।

हम महान आशा में बैठे,
हैं करने को तब पूजा,
ऐसी विकट परिस्थिति में है,
कौन सहारा अब दूजा ?

भारत है निर्धन, निर्बल,
कुछ शेष न पास बचा अब है,
श्रद्धा, भक्ति तनिक सी जो है,
अर्पित देव ! तुम्हें सब है ।

देर न करना नाथ तनिक अब,
नहीं निराश हमें करना,
देर तनिक भी नाथ हुई यदि,
आकर हमें देंगे धरना ।

बस अब कहना शेष न कुछ है,
शीघ्र यहाँ स्वामी आओ,
दुखिया, पराधीन भारत पर,
अब तो तनिक दया लाओ ।

(१० अगस्त १९४०ई०)

दुखिया का धन

हुआ आगमन रवि का नभ मे,
फैल गया किरणो का जाल,
मणि मुक्ता से हुआ सुसजित,
नील व्योम के उर का थाल ।

देखो कुटिया से वह निकला
जीर्ण शीर्ण सा नर-कंकाल,
नेत्र घुस गये हैं कपोल मे,
पचक गये हैं दोनो गाल ।

यद्यपि तन है जीर्ण महा,
सह सकते पैर न उसका भार,
मन मारे वह चला जा रहा
है निज पथ देखो चुप मार ।

अन्तःकरण दुखित है उसका,
मन मे एक छिपी ज्वाला,
चिन्ता से व्याकुल है इतना,
आह ! पड़ गया है काला ।

लख कर जगत घृणा करता है,
आह ! विचारे का कृश गात !
जगती मे अवकाश कहाँ है,
उससे करने को दो वात ?

पर, कुटिया में एक जीव है,
यह जिसके मन का राजा,
लखकर यही गात जिसका,
सूखा मन हो जाता ताज्जा ।

(३२)

बुढ़िया माँ का एक सहारा,
जीवन-नौका का नाविक,
वृद्धापन की लकड़ी है यह,
अन्धेरे घर का माणिक ।

दिन के अथक परिश्रम से
सन्ध्या को पाता दो आना,
प्रबल पेट की चिन्ता से
है लगा हुआ आना जाना ।

दो आने में दो प्राणी का
हो सकता कैसे निर्वाह ?
जीते जी करना पड़ता है
इन दोनों को तन का दाह ।

एक समय भूखे रह करके
एक समय भोजन पाते,
रूखा सूखा सन्ध्या को
जो मिला वही रुचि से खाते ।

आडम्बर से दूर बहुत हैं,
जीवन में कुछ इन्हे न चाह,
किसी भँति दोनो प्राणी का,
बस होवे केवल निर्वाह ।

है सन्तोष दशा से अपनी,
सुन्दरता की याद नहीं,
जग को भूले हैं अपने में,
कुछ भी पर उन्माद नहीं ।

जग के हास विलासो का
इन वेचारो को ज्ञान कहाँ ?
दर्शन भी न हुआ जब उनका,
आवे उनका ध्यान कहाँ ?

जभी सूर्य की रेखा उतरी,
उतर पड़े निज खाटो से,
ये तो क्योंकि सदा वचित हैं,
जग जीवन के ठाटो से ।

(३४)

नित्य कर्म मे छुट्टी पाकर,
चल देता है अपनी राह,
प्रातः पानी भी पीने की,
इसे नहीं है कुछ परवाह ।

वैलो के समान तपता है,
कठिन जेठ-दोपहरी मे,
उधर करोड़पती हैं भूले,
अपने को स्वरत्नहरी मे ।

उसकी अज्ञमता पर हँसता
है, रवि भी अपना जी भर ,
स्वेद-कणों से है हो जाता
बदन विचारे का हा तर ।

भूख प्यास से विह्वल भी वह,
जुटा कार्य मे है रहता,
हाय ! निरन्तर अथक परिश्रम,
करता है दुख को सहता ।

रवि भी बदन छिपा लेता है,
लखकर उसकी यह दृढ़ता ;
मानो होड़ समझ कर इसको,
अपने मन में है गड़ता ।

जब सन्ध्या की ललित अरुणिमा,
है विलीन नभ में होती ,
क्षण के लिए जाग उठती है,
भाग्य विचारे की सोती ।

दो आना मजदूरी पाकर,
है प्रसन्न-मन गृह आता ,
आटा ला कर दे देता है,
मां से दो रोटी पाता ।

तर्क वितर्क न आता उसको,
सो जाता निद्रा में लीन ,
श्रम से थका हुआ उठता है,
प्रातः ही वेचारा दीन ।

यही कार्य क्रम है वस उसका,
वाकी कुछ न प्रयोजन है,
शुद्ध नहीं है यद्यपि तन से,
किन्तु विशुद्ध सदा मन है ।

इसी भौति निज रुधिर, सुखाता,
वनकर महा मनस्वी सा,
निज तन की आहुति करता है,
प्रतिदिन तरुण-तपस्वी सा ।

आज विचारा भी निकला है,
उसी कार्य पर हो तत्पर ;
पर अनिष्ट की आशका से,
आज काँपता है थर थर ।

एक वार वह लौट चला गृह,
पर कुछ समझ पुनः लौटा ,
आज न जाने वार-बार क्यों,
कर लेता निज मन छोटा ?

विवश, गया उस चक्का म,

जुतने को दुर्दिन का मारा ,

कौन जानता मन्द पड़ेगा,

उस बेचारे का तारा ?

देखो ! शेष अस्थि है केवल,

कितना काम परन्तु कड़ा ?

सच है सब को भुकना पड़ता,

सच है जग मे पेट बड़ा ।

किसी भॉति दुष्कर दिन बीता,

पाकर छोटी मजदूरी ;

प्रस्तुत हुआ महा मुदमय हो,

तय करने को गृह-दूरी ,

बड़ा महाद्रुतगति से हा ! वह,

भिन्न विचारों में तल्लीन ,

आज भविष्य अन्ध में उसका,

नहीं जानता था वह दीन ।

सोच रहा था जाकर घर पर,
माता का पाऊँगा प्यार ,
एक इसी सुन्दर विचार से,
बज उठते थे उर के तार ।

ध्यान नहीं उसको कुछ भी था,
सुख स्वप्नो मे था यों लीन ,
उड़ था रहा नभस्तल मे वह ।
नहीं जानता था 'है हीन' ।

सुख से हुआ महाविह्वल यों,
सुख के अश्रु गिरे भू पर,
लगे पैर डगमग होने,
वह बैठा टेक धरा पर कर ।

इसी समय पीकर मदिरा,
निज सभी चेतनाएँ खो कर,
चला जा रहा था विलास का,
पुतला मोटर को लेकर ।

बैठा था वह दीन विचारा,
निज मानस-स्वप्नो मे लग्न,
आह ! आन्तरिक सुख में भूला,
बैठा था अतिशय वह मग्न,

हार्न दिया पर सुन न सका वह,
हटा नहीं वह हा ! तिल भर,
सह सकते थे वावू उसका,
ऐसा ठीठपना क्योंकर ?

मोटर चढ़ा दिया दुखिया पर,
मस्तक उसका चूर हुआ,
क्षण से मर कर हाय ! विचारा,
वहीं लाश का वूर हुआ ।

उधर चचला-मद में उन्मत्त,
ध्यान न कुछ इस पर देकर,
पहुँच गये दो चार क्षणों में,
कोठी पर मोटर लेकर ।

आह ! विचारे उस दुखिया की,
छिपी रही मन की मन मे,
सभी हवाई महल विचारे,
के ढह गये एक जण मे ।

माता की आशाएँ अब भी,
रमी हुई थी हा ! मन मे ।
वह ही तो था एक सहारा,
उसके उस वृद्धापन मे ?

शाम गयी, निशिपति आया,
माँ की उत्कण्ठा उग्र हुई,
सुत को देख नहीं निज गृह मे,
बेचारी अति व्यग्र हुई,

किन्तु न आशा अब भी छूटी,
रात प्रतीक्षा मे बीती,
अश्रु-प्रवाह बहा कर उसकी,
आँख नहीं कुछ भी रीती ।

पौ फटने के पूर्व उठी.
फिर चली उसी दुष्कर पथ पर,
बेटे से मिलने की आशा.
निज मन-मन्दिर में रखकर ।

तनिक दूर ही जाने पर.
निज सुत की लाश मिली उसको,
माता का मन बैठ गया,
वस मृत्यु प्रतीत भली उसको ?

तव की गिरी उठी क्या बुढ़िया ?
क्या फिर से जीवन आया ?
आता कैसे जब दुखिया के,
धन ही ने न उसे पाया ।

आह ! विषमता जग में भी क्या,
सुख दुख का सम्मेलन है ?
एक उड़ाता मौज यहाँ है,
एक महा ही उन्मन है ।

(४२)

ऐ विलासिता के दीवानों !
अब भी निज आँखें खोलो,
कब तक यह वासना चलेगी,
बतलाओ कुछ तो बोलो,

जिनके खून चूसकर जीते,
उन पर क्यों अन्याय भला ?
जिनकी कृपा कोर है उनका,
सदा दवाते हाथ ! गला ।

३० जुलाई १९४० ई०

समाधि दीप

तुम किसकी विरह-वेदना में ,
जलते रहते अविराम सखे ?
हा ! किसकी मिलन-प्रतीक्षा में ,
करते व्यतीत हो याम सखे ?

किस आशा में, किस मस्ती में ,
जीवन का यह व्यापार सखे ?
प्राणों का अर्घ्य चढ़ाते हो ,
किस पर यों वारम्बार सखे ?

बिछुड़ा वह सुन्दर कौन भला ,

रोते निशि भर जिस हेतु सखे ।

जिसमे जग डूब चुका उसपर ;

क्यो बना रहे यह सेतु सखे ?

क्योकर अतीत पर डाल रहे हो,

गहरा सा आलोक सखे ।

वीती सुधियो को जगा रहे ,

कैसा यह करुणोद्रेक सखे ?

इस निर्जन सी समाधि से अब भो,

लगा हुआ क्यो स्नेह सखे ?

यौवन क्यो ढाल रहे अपना ,

विगलित करते क्यो देह सखे ?

किस आशा को तुम सींच रहे ,

होगी क्या वह साकार सखे ?

क्या जोड सकोगे हृत्तन्त्री के

फिर तुम टूटे तार सखे ?

वस केवल भ्रम है मृग-तृष्णा ,
कैसी स्वप्निल अभिलाष सखे ?
यह सम्भव कहाँ तृप्त होले ,
यह अमिट प्रेम की प्यास सखे ?

फिर छाया यह पागलपन क्यों,
कैसा प्राणो मे दाह सखे ?
घुल-घुल कर मिटते, छोड़ रहे
कैसी यह नीरव आह सखे !

इस विरह रात्रि मे, शून्य सदन मे,
विस्मृत हो इस भाँति सखे !
तुम चिर निद्रित से, मौन विछाते
कैसी वन मे कान्ति सखे ?

वह जटिल समस्या है कैसी ,
खो बैठे तुम अपनत्व सखे !
क्षणभंगुरता को देख देख ,
भाता कैसा अमरत्व सखे !

देखो वह छाती पर प्रिय के ,
कितना भीषण है भार सखे !
आशा है क्या कर सकते हो तुम,
उसे जला कर चार सखे ?

पर बना सत्य भी कभी यहां पर,
जीवन में क्या स्वप्न सखे ?
तो बार-बार क्यों लाते हो ,
सम्मुख अतीत मधुमग्न सखे ?

है तृषा तुम्हें, पर बुझे कहा
अक्षय यौवन की प्यास सखे !
जब तप्त अधर को करती है ,
प्रतिक्षण वह-वह निश्वास सखे !

क्या मर्म-वेदना सहते हो ,
जो जान न सकता अन्य सखे ?
किस के वियोग में जलते हो ,
आहुति दे रहे अनन्य सखे !

(४७)

निज प्राणों का उत्सर्ग विश्व में

करता है यो कौन सखे ?

इस असह वेदना को महते .

फिर भी रहते तुम मौन मन्त्रे !

जीवन को बलि के चरणों में ,

यों चढ़ा सकेगा कौन मन्त्रे !

यो महा कठिन तप करते जो न

थकेगा, है वह कौन सखे ?

अरमानों को कर दे मिट्टी

परहित, जग में वह कौन सखे ?

धुल-धुल कर जीवन मिटा चले,

जगती में है वह कौन सखे ?

निशि-अन्धकार को दूर करे ,

पर लख न सके जो प्रात सखे !

जगती का तिमिर मिटाये जो ,

सह-सह शत-शत आघात सखे !

आशाओं की जो बलि दे दे ,

पर जीवन लाने अर्थ सखे ।

हँस-हँस कर करे मृत्यु का

आलिंगन, है कौन समर्थ सखे ?

वह बोये जो, पर काट न पाये,

कैसे प्रेमी जीव सखे ।

जग के हृदयो में डाल रहे हो ,

कितनी गहरी नींव सखे !

तुम पुष्प अनूठे हो, करता

जो जग को सौरभ-दान सखे ।

झड़ता जो कुचल-कुचल चरणों से,

पाता फिर अपमान सखे ।

तुम महा तपस्वी हो वह, जिसका

तप-फल पर अधिकार नहीं,

हो कृषक, खिलाता जो जग को,

पाता पर जो आहार नहीं ।

चह कब से तुमने बना लिया है

तपस्त्रियो का वेप सखे ?

क्या कहते हो कुछ मूक व्यथा से,

कौन मधुर सन्देश सखे ?

सन्देश रोक लेती है, लेकिन

मिट्टी की दीवार सखे ?

तो तुले हुए हो इसीलिए क्या,

करने को यह क्षार सखे ?

प्रति पलही बहते रहते हैं क्यों,

तरल नयन-जल-धार सखे ?

प्रिय की इस उन्मन दृढता पर,

क्यों मान न लेते हार सखे ?

वह निष्ठुर है, निर्मम है, क्या

जाने वह भोला प्यार सखे ?

करके यह सत्याग्रह अपना,

तुम पा न सकोगे पार सखे ।

तव नयन-पुतलियों से गिरते हैं,
टप-टप मोती विन्दु सखे ,
देखो तो कुम्हला गया तुम्हारा ,
यह कैसा मुख-इन्दु सखे !

तुम कड़े प्रेम-बन्धन में पड़कर ,
खो बैठे हो होश सखे ,
पड़ गये स्वयम् जब हथकड़ियों में,
दूँ मैं किसको दोष सखे ?

तुम बन्दी हो, पर नहीं तुम्हें है,
तनिक मुक्ति की चाह सखे !
पथ भूल गये हो, किन्तु न ढूँढ़
रहे हो अपनी राह सखे ।

हो घिरे हुए अंगारो में,
पर इसकी क्या परवाह सखे ?
है मिली प्रेम-मादकता जब ,
निकले क्यों मुख से आह सखे ।

उर कमल तुम्हारा खिलता है ,
लख होते निज को चार सखे ,
बतलाओ तो करते हो क्यों ,
तुम भला मौत को प्यार सखे ?

क्या आशा है मर कर पाओगे
प्रियतम का फिर साथ सखे ?
क्या घूम सकोगे वहाँ पहुँचकर,
ले हाथों में हाथ सखे ?

है लगी यही प्रत्याशा क्या ,
जो बना रही मदमस्त सखे ?
इस पर ही हो क्या तुले हुए ,
जीवन को करते अस्त सखे ?

इस महात्याग के करने में ,
आता न तनिक संकोच सखे !
यों प्राण-लोभ का मान भला ,
कैसे सकते उत्कोच सखे ?

तुम महा तपस्वी हो, तुमसे
करना विवाद है व्यर्थ सखे ,
मेरा तुम से विवाद करना ही ,
रखता है क्या अर्थ सखे ?

वैचित्र्य तुम्हारा देख किन्तु ,
कुछ कह पडता ही हार सखे ,
पर नहीं समझना इसे असगत,
मेरा यह व्यवहार सखे ।

अब रात्रि अधिक जा चुकी आज,
जाता करने विश्राम सखे ,
निज घर जाकर निद्रा में सोलूँ
वस अब तो दो याम सखे ।

फिर मिल लूँगा ही खोज तुम्हे, मैं
उसी समय, इस स्थान सखे ।
हा । किन्तु मिलोगे तुम प्रिय से क्या,
जो कर चुका पयान सखे ।

होली

ग्राम ग्राम के घर घर में है,
गूँज उठी मीठी बोली ;
बहुत दिवस के बाद मिली है,
आओ सब खेलें होली ।

भोली लेकर के गुलाल की,
बच्चों की निकली टोली ;
बुढ़े 'ने भी नव उमर में,
आज मचायी हैं होली ।

(५४)

नाना रंगों से है पूरी,
भरी हुई सबकी झोली,
कैसे रीते आज भला जब,
सुख लेकर आयी होली ?

अरमानों के भवन बनाती,
है धनवानों की टोली,
दीन दुखी पर जला रहे हैं,
निज अरमानों की होली।

चलो प्रथम धनिकों में चल कर,
देखें हम उनकी होली,
समय मिलेगा यदि लख लेंगे
दीन जनो की भी होली।

देखो वृद्ध जनों की
यहाँ वासना हा
आज मनाने को
वे विधिपूर्वक

(५५)

लखो अप्सराओं की जाती,
कैसी शानदार डोली ;
इनके साथ मनावेंगे, ये
वैभव के पुतले होली ।

रत्न-राशि की वर्षा कर देती,
नर्तकियों की बोली ;
दोनो हाथ लुटेगा वैभव,
आज महामुदमय होली ।

गृध्र-दृष्टि से ताक रहे हैं,
नर पिशाच उनकी चोली ।
इसमें ही है बँधी हुई,
मानो हत्यारो की होली ।

आज शेष कामों पर अपने,
मार रहे हैं ये गोली ;
है अवकाश कहाँ कार्यों से,
मना रहे जब वे होली ।

'बहुत निकट ही भरी हुई है,
रंग-गुलालो से झोली,
नर्तकियों के गालो पर है,
नाच रही सारी होली।

इसीलिए तो इन लोगो ने,
आज सम्पदा है खोली,
फिर मनमानी क्यों न मना ले,
ये सब दीवाने होली ?

महलों मे पकवान बन रहे,
लक्ष्मी है जाती तोली,
भीतर बाहर मची हुई है,
सभी जगह मगल-होली।

पाँव कब्र के भीतर जिनके,
है उनकी भी इक टोली,
नव उमंग से, नये रंग से,
चली मनाने है होली।

रसना से नव रस भरता है,
भरी हुई सुमधुर बोली,
वही प्रतिध्वनि गूँज रही,
भावुक मस्तानों की होली।

तृषा शान्त करती है इनकी.
रग गुलालों की भोली
वरस वरस के अरमानों का
पूर्ण कर रही है होली।

जितना मूल्य चुकावे कम है .
है यह अति ही अनमंली .
बार बार फिर कहीं मिलेंगी
मस्तानी, रानी होली ?

इसे विश्व का वैभव दे दो,
हो न कहीं यह विषवाली ;
वर विभूति दे जिससे मुन्दर,
मंगल करणी शुभ-होली।

अविश्रान्त आती रहती है,
देखो पानो की ढोली,
इसके साथ हो रही सुन्दरतर
से सुन्दरतम होली।

मस्तक पर है आज सुहाती,
रंग गुलालो की रोली,
ऊँचे स्वर से कहती मानो
होली है होली, होली।

नहीं गुलालो, दीनो के
शोणित की है यह तो होली,
शोणित मे भर-भर पिचकारी
खेल रहे हैं ये होली!

दीनो की सम्पत्ति चूस,
नर्तकियो की भरती चोली!
शोणित मे है रँगी हुई,
यह दीवानी खूनी होली।

दीनों के प्राणों पर वनती,
आह ! दिवानों की होली ,
उनके ही शोणित से सिचकर
वनी सयानों की होली ।

किन्तु समझते नहीं धनिक हैं,
वह है दीनों की टोली ,
रात्रि-दिवस सब एक बनाकर,
है रचती उनकी होली ।

यह होली तो देख चुके हम,
चले हमारी अब टोली ,
दीन विचारे मना रहे जो,
चलकर देखे वह होली ।

देखो उधर फूस की कुटिया,
छन छन कर आती बोली ,
मोच रहा दम्पति 'किस दुख से,
आज मनेगी यह होली ?'

घर मे नहीं एक कौड़ी भी,
भरे रंग से क्यों झोली ?
कैसे आज मनावेगे हम,
वर्ष वर्ष पर नव-होली ।

हम तो किसी भौंति चुप भी ,
पर शान्त न बच्चो की टोली ,
छोड़ नहीं सकती है वह तो,
कभी मनाना निज होली ।

नये वस्त्र लख मचल उठेगी
नन्हें बच्चो की टोली ,
आकर बच्चे ठुनक पड़ेगे.
आज मनाने को होली ।

व्यथित बाप वैठा चिन्तायुत,
लगी कलेजे पर गोली ;
एक महान समस्या लेकर,
यह आयी निष्ठुर होली ।

दवा हुआ है ऋण-बोभे से,
किन्तु मनाना है होली,
आहुति देकर अरमानो की,
चला मनाने है होली ।

छोटी बच्ची मचल रही है,
देखो है कितनी भोली !
उसको भला विदित ही क्या,
उसकी तो बस होली होली ।

कर्ज काढ़ने पिता चल पड़ा,
लेकर के डडा भोली ,
ऋण से आज बचे वह कैसे,
है जत्र दीवानी होली !

नेत्रों मे अब भी फिरती थीं ,
लड़की की आँखें भोली ,
मूक-वेदना से कहती थीं,
'हम न मनावें क्या होली ?'

(६२)

अश्रुविन्दु दो टपक पड़े,
वह लगी कलेजे में गोली,
दुखियों का बनकर आती,
है यह अभिशाप महा होली ।

अन्तर्व्यथा उसी दृग-जल से,
आह ! विचारे ने धोली,
आँसू ही वरदान लिये,
आयी है यह क्रूरा होली ।

पथ में ही थी, नशेवाज्र
लोगों की, रमी हुई टोली,
गहरा प्याला पी करके,
थी खेल रही अनुपम होली ।

चला जा रहा था दुखिया,
इन लोगो को सूझी बोली;
नेत्र हमें लख चुरा रहा है,
यद्यपि आज सुखी-होली ।

नहीं आज हम ने घमड को
चूरण किया, मार गोली,
नहीं कभी हो सफल हमारे,
जीवन मे यह सुख होली।

ठान यही मन में दुखिया से,
बोल उठी सारी टोली;
'भाई कहाँ चले चुप मारे,
वर्ष वर्ष पर यह होली।'

आज दिवस है रास-रंग का,
मारो कामों पर गोली,
आओ थोड़ा मद्यपान कर लो,
हमसे खेलो होली।

किन्तु बिचारे उस दुखिया को,
कहाँ सुहावे यह बोली ?
बोला. 'नहीं हमारे हित है,
यह तुम लोगों की होली।'

ताना समझ इसे दुखिया पर ,
बिगड़ उठी सारी टोली ,
बध कर उसका उसी जगह पर,
भना चुकी अपनी होली ।

यद्यपि कारागृह पाया ही ,
पर उन सब की क्या हो ली ?
जाकर देखो दुखिया के घर ,
कैसी बनी वहाँ होली ।

मूर्छित रही विचारी पत्नी ,
दिवस गये राते डोली ,
अबला को उपहार यही
दे गयी भरी मंगल होली ।

उस से रोया गया जहाँ तक ,
हाय ! विचारी वह रो ली ।
अश्रुधर ही से उसने, उस
दिन खेली रँगमय होली ।

(६५)

कितने उर मे रखे हुए ,
अरमान रही लड़की भोली ।
एक बार ही जला उठी वह ,
उन अरमानो की होली ।

जला रही थी जिस दम अबला,
अपने प्रिय पति की होली ,
उसी समय थे मना रहे ,
वैभव के भी पुतले होली ।

इसमे उसमें कितना अन्तर ?
यह वह दोनों ही होली ।
है वह तो मदमत्त जनो की ,
पर दीनों की यह होली ।

पापवासना, उच्छ्रंखलता
की, है वह ताण्डव-होली ;
पराधीनता, परवशता यह ,
हाय ! विवशता की होली !

(६६)

पापी, कुटिला, उन्मादी, खूनी ,
मदमाती वह होली ।
जीवन की आशाएँ जिसमें
जलती हैं, वह यह होली ।

[१५ अगस्त १९४०]

भूखों का देवता

'धूमिल छाया में कुटिया की,
लेकर सब जीवन की साध ,
रोगी रुग्ण पडा शैय्या पर,
धरे जिसको दुःख अगाध ।

पत्नी सिरहाने बैठी है,
अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ ,
धीरे-धीरे दवा रही है,
कोमल कर से पति का माथ ।

× दारुण दुःख से धधक उठी है,
गंगा की उर-अन्तर्ज्वल ;
खुला हुआ है बहुत देर से,
यम कगल का भीषण गाल ।

✓ असह-व्यथा से फटा जा रहा
है, बेचारे का हा । माथ ,
लख कर उसकी करुण दशा को,
पत्नी कह उठती, हा नाथ ।

× रक्त मांस सब सूख गये है,
शेष बचा है बस पंजर ,
कर डाला है महा व्याघ्र ने,
उसके सब तन को जर्जर ।

। आज दशा है अधिक क्षीणतर,
जीवन की कुछ आशा नहीं ,
किन्तु, हृदय से मानव के,
होता आशा का नाश कहीं ?

नहीं पास धन है अबला के,
दवा करे जिससे पति की,
अन्य न कोई साधन ही है,
कौन दवा है इस गति की ?

वर्तमान तो वर्तमान है,
पर भविष्य का क्या होगा ?
नहीं कमानेवाला कोई,
फिर क्योंकर जीना हांगा ?

अपनी तो परवाह नहीं है,
पर छोटा सा है बच्चा,
नहीं विश्व का ज्ञान उसे कुछ,
है नादान, बहुत कच्चा ।

देखो, पिता डधर गिनता है,
श्वामों की अन्तिम घड़ियाँ,
दाल-मंडली मे छनती हैं,
धूली की सुमधुर बड़ियाँ ।

आह ! उसे क्या विदित भला है,
उस पर है दुर्दिन की मार ।
पा न सकेगा अब आगे वह,
पिता, पिता का अनुपम प्यार ।

भूला है निज बाल-मडली में,
वह नन्हा सा सुकुमार ,
जहाँ फूट पड़ती है, मानो
सुख समृद्धि की अविरल धार ।

माता को जब याद कभी,
पड़ जाती है बच्चे की बात ,
भावी आशंका से उसका,
हिल उठता है कोमल गात ।

आह ! पिता तो वेसुध है,
उसको कुछ भी है याद नहीं ,
है नितान्त असमर्थ आज,
लखता बच्चे का नाद नहीं ।

(७१)

खल पाता यदि उसे कहीं,
चिन्ता-सागर लहरा जाता ,
अपने क्षीण हृदय पर वेवस,
घाव बहुत गहरा पाता ।

खेल समाप्त हुआ बालक का,
लुधा महान् प्रतीत हुई ,
अब तक विस्मृत माँ थी उसको,
माता से अब प्रीति हुई ।

घर की ओर बढ़ा द्रुत गति से ,
खेल-तमाशा भूल सभी ,
हुआ अभी था आपस में जो ,
भूल गया वह तूल कभी ।

पहुँचा घर पर मां को देखा ,
प्रश्न प्रथम था रोटी का ,
सुन कर माता चकित हुई ,
हा ! अञ्जल सरका चोटी का ।

बस को क्या दे सकती थी ,
घर में अन्न न तनिक रहा !
दारुण स्थिति में आह ! विचारी
से, न गया वह कष्ट सहा ।

ठीक उसी दम प्राण पखेरू ,
पति के भी आकाश उड़े ,
ये वे प्राण पती के , या
ये अवला के सौभाग्य उड़े ?

मरते दम का दृश्य अभी भी
था उसकी आँखों में विद्य ,
नेत्रों के खम्मुख अब भी ,
करता था एक भयानक नृत्य ।

देख रही थी, मरते दम के
पति के सजल नयन अब भी ;
पति का कातर हृदय कर रहा
था सकरुण क्रन्दन अब भी ।

(७३)

हत-ज्ञान हुई अबला भारी ,
नेत्रों से बूँद न एक गिरी ,
दुर्वह हृदय व्यथा से उसकी ,
आँखें निज सुत-आर फिरीं ।

अब न रोक पायी अपने को ,
आँसू के भरने फूटे ,
मोती-विन्दु बड़ी द्रुत गति से
नेत्रों से सहसा छूटे ।

अब तक बालक समझ रहा था
इसको एक पहेली सा ;
शीघ्र उठा भोले बालक का
मस्तक, युगल हथेली का ।

मस्तक कर पर धर वैठा था ,
माता का रोना लख कर ,
बंधे स्रोत सम फूट पड़ा वह ,
खड़ा हो गया अब उठ कर ।

दीर्घ काल तक चुप न हुए वे ,
अविश्रान्त रोना रंगे ;
रोते क्यों न विचारे जब थे ,
अपनी अनुपम निधि खोए ।

लेजाकर शव को श्मशान पर ,
फूँक दिए उनके भाई ,
इन दोनों को तो विलम्ब में
ही, हा ! चेतनता आयी ।

रोटी का अब प्रश्न कठिन था ,
मा जिसको सुलभा न सकी ,
भूखे वच्चे को आश्वासन
देकर भी, समझा न सकी ।

रोटी कौन हमें देगा अब ,
मां हमको यह बतलाओ ,
भोजन, वस्त्र चलेगा कैसे ,
हमें तनिक तो समझाओ ।

शान्त चित्त से माता कहती ,
लख नहि सुत मे दोष कुटेव ,
'बेटा सत्र को भोजन देता ,
जगत् पिता भूखो का देव ।'

बेतला दे मुझको, मेरी माँ ,
भूखो का है देव कहाँ ?
मिले तनिक भी मुझे पता यदि ,
उससे जाकर मिलूँ वहाँ ।'

उत्तर इसका माँ क्या देती ?
मन व्याकुल हो रह जाता ,
पीछे से कर्तव्य कान में ,
चुपके से बुछ कह आता ।

बहला देता सुत को कह कर ,
'श्रद्धा से ही मिलता ईश ;
कोई जगह विशेष नहीं वह ,
सभी जगह रहता जगदीश ।'

मिलने को प्रभु से अनाथ ने ,
अपने मन में ठान लिया ;
अपनी प्रतिभा--प्रखर--बुद्धि से ,
ठाक पता था जान लिया ।

निकल गया निर्जन कानन मे ,
हुआ तपस्या में तल्लीन ,
हा ! अनाथिनी की गोदी से ,
लिया देव ने सुत भी छीन ।

कई दिवस तक सुधि-बुधि खोकर ,
रहा तपस्या में वह लीन ,
ऐसे प्रभु प्रत्यक्ष मिलेगा ,
यही जानता था वह दीन ।

सूख गया तन, क्षीण हुआ मन.
चलने को भी शक्ति न थी ;
कितना महाव्रती था पर वह ,
छुटती अब भी भक्ति न थी ।

भोला सा नन्हा मुखड़ा हा ।

कुम्हला कितना आज गया ,

किन्तु हृदय-बल विपुल उसे

था, प्राप्त हुआ हां आज नया ।

हुआ ब्रह्म से लीन, अन्ततः

साध हुई पूरी मन की ,

यद्यपि इसके लिए उसे ,

बलि देनी पडी आज तन की ।

पापी जग वह देख न पाया .

नन्हा सा भोला सुकुमार ,

पर उसकी दुखिया माता पर

पडी विश्व की भारी मार ।

धनिकों के प्रपञ्च से अवला ,

हो हताश हा ! ऊब गयी ,

रोती और विलखती ही वह

जग-जलनिधि मे डूब गयी ।

अनुभव हुआ नयी दुनियां को ,
जिसमे दीनों का शोषण ,
आह ! कुटिलता और विषमता
का, इसमें कितना पोषण !

पद पद पर ठुकराये जाते
हैं, बेचारे दीन दुखी ,
यह दुनियां उन लोगो की है,
जिसमे रहते क्रूर सुखी ।

अरे मदोन्मत धन गर्वी तुम ,
लूट रहे हो कितने पाप !
कितने दुखियों के मिलते हैं ,
प्रतिदिन तुमको भीषण शाप !

इसे न कोरा शाप समझना ,
इसमे छिपी महा ज्वाला ;
सभी तुम्हारे सुख, वैभव पर ,
पड़ जायेगा हिम पाला ।

अब तक रहे चूसते जिनको
पाप न दम लेने देगा ;
इसी क्रूरता से तुम लोगों
के भी, जन्म प्राण लेगा ।

किस मस्ती मे हो तुम भूले ।
सब दिन एक समान नहीं ,
वर्तमान ही रहता सम्मुख ,
है भविष्य का ध्यान नहीं ।

दीनों को अपनाओ प्यारे ।
काफ़ी सता चुके इनको ,
अधिक क्रूरता करके अब तुम ,
दिखा सकोगे मुख किसको ?

इनका स्नेह, सहानुभूति ,
सहृदयता करलो यदि तुम प्राप्त ;
फिर देखो वह सुयश तुम्हारा ,
वनकर हो दिगन्त मे व्याप्त ।

बन्दी

अरे तोड़ दे जञ्जीरों को,
जिन्हे देख है हँसती भाग,
बन्दीगृह के प्राचीरो में,
बन्दी । आज लगादे आग ।

तुम्हे देख हँसता है दुर्दिन,
संस्मृति तुम्हको उकराती ;
मायावी, छलना, तेरी है
भाग्य, तुम्हे लख मुसकाती ।

कठपुतला है बना भाग्य का,
उर मे ही रहते अरमान ,
पद-पद पर सहना पड़ता है,
घड़ी-घड़ी तुझको अपमान ।

निठुर बन्धनो मे समाज के,
पडा आज वेवस होकर ;
कारागृह मे दिवस विताता,
क्यों बन्दी ! सब कुछ खोकर ?

सामाजिक प्राचीन रूढ़ियों
पर, तूने धावा बोला ,
इसीलिए तो खल समाज ने,
कारावास - द्वार खोला ।

चह समर्थ जन का समाज है
हाँ, रे मतवाले बन्दी !
प्रचलित इसमें आज प्रथाएँ,
हैं मनमानी, अति गन्दी ।

(८३)

चिल्लाता 'अन्याय महा है,'

पर सुनता है तेरी कौन ?

इस चिल्लाने से अच्छा है,

बिल्कुल ही रह जाना मौन ।

आज न तेरा साथी कोई,

आँखें सभी चुराते हैं ,

तेरे ही सम्मुख रे बन्दी !

तेरी हँसी उड़ाते हैं ।

स्वयम्-बनाये कानूनों की,

पर परवाह न तू करना ,

जन्म-सिद्ध अधिकारों के हित,

इसी भौंति लड़ते रहना ।

कितनो ने निष्ठुर समाज की,

बलिवेदी पर प्राण दिये;

पर क्या इस दानव-समाज ने,

बन्दी ! उन पर कान किये ?

अगणित वलिदानों से ही,
नृष्णा बुझ सकती है इसकी,
जब नवीन पथ चला बनाने,
वात तुम्हें तब किस भय की ।

अरमानों की भव्य वाटिकाएँ,
तो तेरी उजड़ चुकीं ;
स्वप्नों के संसार विगड़ते,
आँखें तेरी देख थीं ।

अपना जब सर्वस्व मिट चुका,
तब निज तन भी लय कर दे ,
निज अनुपम उत्सर्ग मात्र से,
खल समाज में भय भर दे ।

अर्घ्य चढ़ा दे निज प्राणों का,
स्वाहा कर दे अरमानों ,
कूद पड़ेगे निश्चय उसमें,
आज्ञादी के परवाने ।

(८५)

आयेगा भूचाल भयानक,
इन सब के बलिदानों से,
नव-समाज के स्तम्भ उठेंगे,
बन्दी ! तव अरमानों से ।

२३ अगस्त १९४०

अतीत

दुर्दिन देख चुका है भारत '

क्या अब भी इच्छा बाकी ?

युग के युग हैं बीत गये,

पूरी न हुई आशा माँ की ।

हाय ! विचित्र दशा है तेरी,
तेरा पहला मान कहाँ ?
उन्नत मस्तक विनत बता क्यों,
तेरा गौरव गान कहाँ ?

(८७)

किस अनन्त में हैं विलीन,
गाथाएँ तव सुकुमारों की ?
कहाँ गयी वह चमक निराली,
बगमग जगते तारों की ?

पहला गौरव खो बैठा क्यों,
भारत ! इसका कारण क्या ?
दुखी दशा का सोचा तूने,
अब भी कभी निवारण क्या ?

निज स्वतन्त्रता खो करके,
बैठा है तू निष्कृत्य होकर,
पर इच्छा आधीन बना तू,
अपनी विमल कीर्ति धोकर ।

तेरी ध्वजा पताका क्यों है,
नीचे पड़ी विना आदर ?
रणगामी तेरे सुपुत्र क्यों,
बने हुए हैं अब कायर ?

तूने अन्य देशियों को भी
शत-शत पाठ पढ़ायें थे ;
रग्व आदर्श महान् तभी तो,
अपने मान बढ़ाये थे ।

रण-चंडी की प्यास बुझायी
थी, तूने दे बलि नेकों,
निज स्वतन्त्रता-हित दोषों को,
अब भी तो अपने फेंको ।

भारत था तू भारत केवल,
राष्ट्रीयता के बल पर,
उसके कारण ही तेरा,
आदर था उतना इस थल पर ।

अक्षय कीर्ति रहेगी उसकी,
जगत करेगा याद सदा ;
अमिट पड़ी है छाप, रहेगा
उसका गौरव-नाद सदा ।

वर्णन करना नहीं सरल है,
है महान गौरव गाथा,
सुनकर तेरी अद्भुत कृतियों,
चकरा जाता है माथा ।

राजस्थान उपस्थित अब भी,
हा । स्मृति उसकी शेष रही,
राजपूत वीरो की जननी,
पर है अब वह वेप नहीं ।

इतिहास हमारा जिसे देखना
हो, वह जा हल्दी देखे,
उसके वक्षस्थल पर के
घावो को तो वह कुछ लेखे ।

आह ! वही शोणित की प्यासी
हल्दी उसे बतावेगी,
क्षत्र जाति का अद्भुत परिचय,
उसको आज करावेगी ।

प्राणों का सौदा करने को,
राजपूत उसमें आये,
रणचढी की प्यास बुझाने
को ही मर्दाने धाये ।

कैसी शान टपकती थी,
आजादी के दीवानो से ;
एक अलौकिक साहस सा,
फरता था उन मस्तानो से ।

मरना हो तो उनसे सीखो,
जीना हो तो भी उनसे ।
कर्म क्षेत्र में पग रखना हो,
तो जाकर सीखो उनसे ।

गौरव से उन्नत कर मस्तक,
खड़ा राजपूताना आज ;
अब भी मस्तक झुका नहीं है,
बना एक मर्दाना साज ।

चप्पा चप्पा भूमि वहाँ की
क्षत्रिय शोणित से साँची ,
पूर्व-शक्ति से ही केवल,
हो सकती कभी न वह नीची ।

कैसा था राणा प्रताप वह,
था उसका कैसा व्रत वह ;
कैसी उसकी सहनशीलता,
था कैसा सेवा-रत वह ?

नहि स्वतन्त्रता बेची उसने,
यद्यपि समुद्र सहा वनवास ,
देश हेतु ही तो उसने,
खायी जंगल की कोरी घास ?

इस दृढ़ व्रत के ही कारण तो,
छक्के अकबर के छूटे ।
आत्म-धैर्य के ही कारण,
अवसर था पैरों पर लोटे ।

गोरा बादल का भूलेगा,
जग को क्या दृष्टान्त कभी ?
अमर-पृष्ठ से मिट सकता है,
उनका क्या वृत्तान्त कभी ?

राजपूत ही नहीं राज-
पूतनियाँ छोड़ गयी हैं छाप ;
जौहर व्रत का जग में होता,
सदा रहेगा मंगल-जाप ।

कैसा उनका साहस था वह,
कैसा उनका था उत्सर्ग ?
मानहानि के एक प्रश्न पर,
जल उठता था पूरा वर्ग ।

आतताइयों के मस्तक,
उनके सम्मुख उठते थे क्या ?
धर्मभ्रष्ट करने को उनको,
साहस कर सकते थे क्या ?

रण में जाने हेतु कौन,
पतियों को थी करती तैय्यार ?
हो प्रसन्नता से आह्लादित,
पहनाती थी उनको हार ।

एक बार यम भी लख उनको,
मस्तक अपना नाते थे ,
अपने मस्तक पर उनके,
चरणों की धूलि लगाते थे ।

इगित पर स्वदेश के अपने,
चितामध्य वे जलती थी ,
कैसी थी वे वीर नारियाँ,
निज पथ से नहि टलती थी ?

राणा की पुत्री चम्पा का,
कैसा था आदर्श महान ?
मरते दम तक भी स्वदेश—
चिन्ता ही में था उसका ध्यान ।

उस क्षण श्री राणा प्रताप भी,
निज कर्तव्यो से च्युत थे,
अवलोकन कर हालत अपनी,
वे महान चिन्ता युत थे ।

हार, अन्त में जाते थे
करने वे अरुबर से सन्धी ;
पुत्री की हालत लख उनकी,
बुद्धि हुई थी तव अन्धी ।

सुन उनका निश्चय चम्पा ने,
भट्ट उनको आदेश दिया,
जिसको राणा ने उरधर कर,
फिर स्वतन्त्र निज देश किया ।

बाइस वर्ष कटीली सेजो
पर, सोये वह राजकुमार ;
अतुलित बतलाओ तो कैसा,
था उनका स्वदेश का प्यार ?

एक शिवाजी ने बतलाओ,
कैसे धर्मोद्धार किया ?
देश जाति का तन मन से,
कैसे उसने उपकार किया ?

है दधीचि का त्याग याद क्या,
रन्तिदेव का अतुलित दान ?
कर्ण आदि का शौर्य पराक्रम,
होता क्या कुछ भी है भान ?

पिछला युग भी याद करो तो
होगा तुमको अति आनन्द,
एक अलौकिक पात्रोगे
उत्सर्ग तभी हा तुम सानन्द ।

भाँसी की रानी, बतलाओ तो
कैसी थी समर धनी ?
कैसी दिखलाती रण प्रांगण
में सुन्दर थी रक्त-सनी ?

नर मुंडो से क्षेत्र पटा था,

उसके आगे कैसा वह ?

निज स्वत्वों की रक्षा का,

कैसा था युद्ध भयानक वह ?

जिधर निकल जाती रणचंडी

क्षेत्र ढहल उठता सारा,

एक अकेली अवला ने हा !

कितने अरियो को मारा ?

मॉग निजी अधिकागो की भी,

उनको असह प्रतीत हुई,

तभी यन्त्रणाएँ तो भारत

से, निकलीं हा ! नयी नयी ।

अत्याचार देख भारत के

लालो के उर तड़प गये,

शब्द उठाने को उसके

प्रतिकूल तभी उठ खड़े हुए ।

(६७)

सन्देशा था अति सुन्दर वह,
भारत की ! आजादी का,
कहते हैं वे गद्दर इसे पर,
भारत की वरत्रादी का ।

भारत की स्वतन्त्रता का,
घनघोर युद्ध था प्राणों का,
सिहनाद था रणवीरों का,
कितने विप्लव-गानो का ।

वैदेशिक सत्ता को करने
नष्ट, शहीदों की टोली,
बाँध करून सिर में, स्वदेश हित
नव-उमंग से ही निकली ।

निज सम्मान बचाने के हित,
प्राणों की थी चाह नहीं,
मिट वे गये क्षेत्र में जाकर
निकली मुख से आह नहीं ।

कैसा था वह दृश्य भयानक !

हा ! कितने घर भग्न हुए ?

कितने ज्वलित-लाल जननी के,

समरांगण में नष्ट हुए ।

सुहागिनों के सुहाग उजड़े,
घेर लिए उनको दुखड़े;
निरपराध, कितने छोटे
बच्चे, माँ बापो से विछुड़े;

मानवता का हास हुआ,

पशुता की ही तूती बोली,

नीति चली फिर एक भयावह,

जो थी अति ही विष-घोली ।

इधर दिवानो का जत्या था,
उधर पिशाचों की टोली;
जलते हुए घरों की आकर्षक,
थी कैसी वह होली ?

भारतीय ललनाओं के तन,
अम्बर-हीन दिग्घाते थे,
वर्म भ्रष्ट करके ही उनको,
वे आनन्द उठाते थे।

पैशाचिक बल से हारा
मनुष्यत्व, न उसका नाम रहा,
बाढ़ी बचे हुए को करना,
नष्ट एक अव काम रहा।

आह ! क्रूरता की सीमा को,
भी दैत्यों ने पार किया,
धूल धूमरित कर भारत
को ही उन सवने श्वास लिया।

भारत ! तेरी शक्ति कभी भी,
क्षीण किसी से नहीं रही,
आजादी-हित बतला किस
युग में नहि शोणित नदी बही।

(१००)

कब नहीं चढ़ना जाने, तेरे

पुत्र समुद्र बलि-वेदी पर ?

कब नहीं मरना जाने वे सत्र,

स्वतन्त्रता की वेदी पर ?

तूने मिखलाया जग को,
किस भौंति पुरुष मर जाते हैं ;
कर्म क्षेत्र में आकर के,
किस भौंति कर्म कर जाते हैं ।

तब फिर बनला तो, क्या कारण

है भारत असफलता का ?

क्या तुझको मिलता सदैव है,

बदला नहीं सरलता का ?

राजपूत वीरो की समता,
कौन जाति कर सकती है ?
उनकी सद्गाथा कहते,
यह जिह्वा भी तो थकती है ।

(१०१)

फिर भी उनको करना पड़ा,
पराजय का क्यों कर अनुभव ?
क्या युद्धो मे किसी भाँति,
कम कहता कोई उनका लव ?

नहीं, बात यह है—भारत सुत
कभी संगठित नहीं रहे,
एक धार में बँध कर उनके,
कभी न शोणित-स्रोत बहे ।

होता यदि संगठन कहीं तो,
क्या गोरी भारत आता ?
पराधीनता की कड़ियों में,
क्या भारत तब बँध जाता ?

गोरी को ही पृथीराज ने,
एक मास कैदी रक्खा ;
किन्तु संगठन के अभाव से,
उमने उसका फल चक्खा ।

होता हत्यारा जयचन्द्र
कहीं हा विधि नहि भारत मे,
तो पड़ता क्या स्वर्ग देश यह,
हा भगवन ! दुख आरत मे ?

घर के भेदी ने ही तो हा !
घर का मत्यानाश किया ,
घर की उपजी हाय ! फूट ने
ही, तो मत्र का नाश किया ?

हाय ! व्यक्तिगत भगड़े के
कारण, भारत की भाग्य मिटी,
एक फूट के ही कारण तां,
भारत की सम्पत्ति लुटी ?

राजपूत वीरों के बल का
संचय भारत मे होता,
तो क्या सम्भव था भारत
अपनी आजादी को खोता ?

होते यदि आक्रमण देश में
कहीं अन्य देशी अरि के,
मर मिटने को तत्पर रहते,
निर्भय राजपूत-लड़के ।

है इतिहास हमारा साक्षी,
राजपूतों के विक्रम का,
एक प्रकाश दिखाता हमको,
उनके लौह-पराक्रम का ।

थे वे राजपूत. तलवार-
परीक्षा करते उँगली पर,
देश-जाति के एक प्रश्न पर,
दे देते थे अपना सर ।

था यह सभी, परन्तु संगठन
की बस कमी सदैव रही,
बस इस एक मात्र कारण से,
क्षत्रिय जाति अधीन रही ।

अपने कर्तव्यो से च्युत, यह

जाति हो गयी आज अहा !

परावीनता - जख्खीरों में,

जकड उठी है आज महा ।

रणगामी थे राजपूत जां,

हैं वे ही वेश्यागामी ,

जो थे कमी महानामी हा ।

आज बने हैं वे कामी ।

हा ! स्मृति-मात्र शेष है अवतो,

पतित हुए हम आज महा ,

लज्जा धोने को बस अब तो,

एक पूर्व-इतिहास रहा ।

(२५ अगस्त सन् १९४० ई०)

टंकार

मचा सकेगी सरम हृदय मे,

यह जब एक प्रवल भकार ;

समस्त सकृगा अपने मन मे,

सफल हुई मेरी टंकार ।

अश्रुकणों से लदा हुआ

यह शताब्दियों का लेकर भार,

दोमे से कुछ ढवी हुई सी,

जाती है मेरी टंकार ।

(१०६)

सम्भव है पूँजी-उत्पीडन
से यह भी हो जावे चार ,
किन्तु गूँजती सदा रहेगी,
जन्म-जन्म इसकी टंकार ।

होकर भी टंकार, वहा
देगी 'हृदयो मे करुणा-वार ,
नहीं निरर्थक तत्र कह दे
'नाम' कहीं इसका टंका

सदा प्रयत्न करेगी, जोड
सके यह उर के दूटे तार ,
आशाओं से परिप्लावित,
मेरे नन्हे उर की टंकार ।

नहीं इसे कुछ काव्य समझना,
यह मेरे उर की झंकार :
हृत्तन्त्री के तारों
रगण, मचा उठती

(१०७)

जग-जीवन की विभीषिका से,
पाकर के उर भारी हार ,
धैर्य, शौर्य, आशा, धारण
कर सुना सका है यह टकार ।

पराधीन, परवश, उन्मन मन
की, यह छोटी सी हुकार ,
विफल प्रयास किया है मैंने,
कह करके इसको 'टंकार' ।

जो हो, त्रुटि कर ही ढाला है,
आशा है, पावेगी प्यार ,
हुई निरादृत, पड़ जावेगी,
मेरी यह धीमी टंकार ।

त्रुटियों से तो महा कठिन है,
इस जीवन में पाना पार ,
अतः विरक्त भला कैसे,
त्रुटियों से रह सकती टंकार ।

आशा से इस, 'दूर करेगी
दुखियों के सिर पर से भार'

पाठक ' सम्मुख भेज रहा हूँ,
अपनी छोटी सी टंकार ।

इसे धृष्टता समझ, क्षमा
करना मेरी यह है मनुहार ;
देखो किन्तु रूठ मत जाए;
मेरी आशा, यह टंकार ।

गा-गाकर कुछ करुण कहानी,
करता हल्का जी का भार ;
उसका ही यह फल स्वरूप है,
मानस की मेरी टंकार ।

वही कहानी जिसमें, जीवन
की आशाएँ होतीं चार ;
उसकी ही बस प्रतिध्वनि है यह,
उसकी ही बस है टंकार ।

(१०६)

सुनकर ऊब गये होंगे,

पाठकगण अब मेरी टंकार ;

चुप हो बैठ रहा हूँ, हाथो

में अर्पित करके 'टंकार' ।

— — —



